

Annexure-III (B)

APPLICATION FOR BENEFIT UNDER NFBS

Name of Deceased Person : First/Middle/Last Name.....

Father's/Husband's Name of Deceased Person.....

Age at the time of Death.....

Date of Birth...../.../.....

Category(SC/ST/OBC/Minority/Gen.).....

Habitation:.....

Village.....

Gram Panchayat: Ward/Locality.....

Sub District/Block.....

District.....

State.....PIN.....

BPL Details

Year:.....Location.....Family ID No.....

Member ID No.....

Name of the Applicant.....

Relationship with the Deceased Person.....

Signature of the Applicant/Thumb Impression

राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्य कम के अन्तर्गत दावे हेतु प्रपत्र

1 मृतक का नाम श्रीमति/कु०गांवडा०तहसील
.....जिलाहि०प्र०

2 परिवार की बी०पी०एल० कोड सं०.....

3 मृतक की मृत्यु के समय आयु पंचायत रिकार्ड अनुसारवर्षमास.....दिन.....

4 मृत्यु का कारण कृपया निशान लगाये

प्रकृतिक आपदा, दुर्घटना से मृत्यु पंचायत/नगरपालिका द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करे।

5 मृतक के परिवार में कमाने वाले व्यक्ति का विवरण

क्र०सं०	नाम	आयु	व्यवसाय	मृतक से सम्बन्ध	कमाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की कुल आय

6 मृतक की कुल वार्षिक आय.....

1 राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत परिवार को तभी लाभ दिया जायेगा यदि मृतक परिवार के लिए प्राथमिक रोजी कमाने वाला हो।

2 प्राथमिक रोजी कमाने वाले सदस्य का निर्धारण करते समय मृतक पत्नि /माता का धन अर्जन योगदान जैसा कि उसका घरेलू कार्य में योगदान इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुऐ किया जाएगा।

3 मृतक के परिवार के मुखिया का अवधारण स्थानीय पुछताछ अथवा परिवार की आम सहमति से होगा।

आवेदक का नाम.....

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक बी०पी०एल० परिवार से सम्बन्धित है जिसका बी०पी०एल० कोड संख्या.....
.....और पंचायत रिकार्ड अनुसार आयु.....वर्ष है।

हस्ताक्षर

पंचायत सचिव/सहायक

ग्राम पंचायत

आवेदक श्री /श्रीमति.....पुत्र/पत्नि/श्री

.....गांवडा०तहसील.....जिला.....

.....हि०प्र० को राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत 10000/- रूपये की राशी स्वीकृत की जाती है तथा आवेदन पत्र खण्ड विकास अधिकारी जिलाको सहायता राशी हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षर

प्रधान ग्राम पंचायत